

उत्तराखण्ड शासन
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2
संख्या:-400/XXXIV-2/2017/49/2017
देहरादून: दिनांक: 04 नवम्बर, 2019

अनु सचिव,

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-1

उत्तराखण्ड शासन।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 421/XXXVIII/2017-49/2017 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री कवीन्द्र सिंह संयुक्त सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए श्रीमति ऋचा, अनु सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2, को श्री कवीन्द्र सिंह संयुक्त सचिव, के स्थान पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2- नोडल अधिकारी, अनु सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन का विवरण आपके अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

नामित नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष सं०/मोबाइल सं०	ई-मेल	वाट्सऐप नं०
श्रीमति ऋचा	अनु सचिव	9927699138	richausecy.uk@gov.in	8755505123

(ऋचा)

अनु सचिव।

0/c